



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 10 जून, 2025

ज्येष्ठ 20, 1947 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/615/2025-4-82(गाजियाबाद)-2014

लखनऊ, 10 जून, 2025

अधिसूचना

प0आ0-100

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैतीस-1-94-149-94, दिनांक 09 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अमित कुमार सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-30रा0नि0आ0-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या-आई/970927/2025, दिनांक 23 मई, 2025 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद गाजियाबाद की समय-समय पर निर्गत विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/726/2025-5/82(गाजियाबाद)-2014, दिनांक 30 सितम्बर, 2022 में विकास खण्ड-भोजपुर की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व की स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करता हूँ।

सारिणी

जनपद :- गाजियाबाद

क्र० सं०	पूर्व की स्थिति			क्र० सं०	संशोधित की स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	भोजपुर	कलछीना	करछीना	1	भोजपुर	कलछीना	करछीना
2	भोजपुर	भोजपुर	भोजपुर	2	भोजपुर	भोजपुर	भोजपुर
3	भोजपुर	सैदपुर हुसैनपुर डीलना	सैदपुर हुसैनपुर डीलना	3	भोजपुर	सैदपुर हुसैनपुर डीलना	सैदपुर हुसैनपुर डीलना
4	भोजपुर	त्यौडी बिस्वा-13	त्यौडी बिस्वा-13	4	भोजपुर	त्यौडी बिस्वा-13	त्यौडी बिस्वा-13
5	भोजपुर	नाहली	नाहली	5	भोजपुर	नाहली	नाहली
6	भोजपुर	सारा	सारा	6	भोजपुर	सारा	सारा
7	भोजपुर	मुकीमपुर	मुकीमपुर	7	भोजपुर	मुकीमपुर	मुकीमपुर
8	भोजपुर	चुडियाला	चुडियाला	8	भोजपुर	चुडियाला	चुडियाला
9	भोजपुर	अतरौली	अतरौली	9	भोजपुर	अतरौली	अतरौली
			अबलपुर				अबलपुर
10	भोजपुर	बखरवा विद्यापुर	बखरवा	10	भोजपुर	सुरहरा	बखरवा
			विद्यापुर				विद्यापुर
11	भोजपुर	तलहैटा	तलहैटा	11	भोजपुर	तलहैटा	तलहैटा
							जैनुउदीनपुर (गैर आबाद)
12	भोजपुर	त्यौडी बिस्वा-7	त्यौडी बिस्वा-7	12	भोजपुर	त्यौडी बिस्वा-7	त्यौडी बिस्वा-7
13	भोजपुर	खंजरपुर	खंजरपुर	13	भोजपुर	खंजरपुर	खंजरपुर
14	भोजपुर	औरंगाबाद फजलगढ	औरंगाबाद फजलगढ	14	भोजपुर	औरंगाबाद फजलगढ	औरंगाबाद फजलगढ
15	भोजपुर	अमराला	अमराला	15	भोजपुर	अमराला	अमराला
16	भोजपुर	किल्हौडा रघुनाथपुर	किल्हौडा	16	भोजपुर	रसूलपुर	किल्हौडा
			रघुनाथपुर				रघुनाथपुर
17	भोजपुर	लतीफपुर तिबडा	लतीफपुर तिबडा	17	भोजपुर	लतीफपुर तिबडा	लतीफपुर तिबडा
18	भोजपुर	जहागीरपुर	जहागीरपुर	18	भोजपुर	जहागीरपुर	जहागीरपुर
19	भोजपुर	भटजन पलौता	भटजन	19	भोजपुर	टेहू	भटजन
			पलौजा				पलौता
20	भोजपुर	अमानाबाद	अमानाबाद	20	भोजपुर	अमानाबाद	अमानाबाद
21	भोजपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	21	भोजपुर	सुजानपुर	सुजानपुर
22	भोजपुर	जामपुर	जामपुर	22	भोजपुर	जामपुर	जामपुर
23	भोजपुर	जमाल न0भैस	जमाल न0भैस	23	भोजपुर	जमाल न0भैस	जमाल न0भैस
24	भोजपुर	मुखवार	मुखवार	24	भोजपुर	मुखवार	मुखवार
25	भोजपुर	चावली	चावली	25	भोजपुर	चावली	चावली

क्र० सं०	पूर्व की स्थिति			क्र० सं०	संशोधित की स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
26	भोजपुर	बैनई कंला	बैनई कंला	26	भोजपुर	बैनई कंला	बैनई कंला
27	भोजपुर	चिरहौली	चिरहौली	27	भोजपुर	चिरहौली	चिरहौली
28	भोजपुर	अरेला	अरेला	28	भोजपुर	अरेला	अरेला
29	भोजपुर	बिरुनी	बिरुनी	29	भोजपुर	बिरुनी	बिरुनी
30	भोजपुर	नगला बेल	नगला बेल	30	भोजपुर	नगला बेल	नगला बेल
31	भोजपुर	मौसनाबाद	मौसनाबाद	31	भोजपुर	मौसनाबाद	मौसनाबाद
32	भोजपुर	नगला पचौरी	नगला पचौरी	32	भोजपुर	नगला पचौरी	नगला पचौरी
33	भोजपुर	सराय जैराम	सराय जैराम	33	भोजपुर	सराय जैराम	सराय जैराम
34	भोजपुर	बरहन	बरहन	34	भोजपुर	बरहन	बरहन
35	भोजपुर	खेडीअडू	खेडीअडू	35	भोजपुर	खेडीअडू	खेडीअडू
36	भोजपुर	नगला बरी	नगला बरी	36	भोजपुर	नगला बरी	नगला बरी
37	भोजपुर	कुरगंवा	कुरगंवा	37	भोजपुर	कुरगंवा	कुरगंवा
38	भोजपुर	नगला महासिह	नगला महासिह	38	भोजपुर	नगला महासिह	नगला महासिह
39	भोजपुर	नगला सिरजी	नगला सिरजी	39	भोजपुर	नगला सिरजी	नगला सिरजी
40	भोजपुर	तमाचगढ़	तमाचगढ़	40	भोजपुर	तमाचगढ़	तमाचगढ़
41	भोजपुर	सैफुददीनपुर	सैफुददीनपुर	41	भोजपुर	सैफुददीनपुर	सैफुददीनपुर
42	भोजपुर	यूसुफपुर	यूसुफपुर	42	भोजपुर	यूसुफपुर	यूसुफपुर
43	भोजपुर	नगला स्वरूप	नगला स्वरूप	43	भोजपुर	नगला स्वरूप	नगला स्वरूप
44	एत्मादपुर	मुर्थरअलीपुर	मुर्थरअलीपुर	44	एत्मादपुर	मुर्थरअलीपुर	मुर्थरअलीपुर
45	एत्मादपुर	चूहरपुर	चूहरपुर	45	एत्मादपुर	चूहरपुर	चूहरपुर
46	एत्मादपुर	अहारन	अहारन	46	एत्मादपुर	अहारन	अहारन
47	एत्मादपुर	खरकंना	खरकंना	47	एत्मादपुर	खरकंना	खरकंना
1	जै०कंला	रीछापुरा	रीछापुरा	1	जै०कंला	रीछापुरा	रीछापुरा

क्र० सं०	पूर्व की स्थिति			क्र० सं०	संशोधित की स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
2	जै०कंला	वैदपुरा	वैदपुरा	2	जै०कंला	वैदपुरा	वैदपुरा
3	जै०कंला	कमतरी	कमतरी	3	जै०कंला	कमतरी	कमतरी
4	जै०कंला	रूपपुरा	रूपपुरा	4	जै०कंला	रूपपुरा	रूपपुरा
	जै०कंला		धायपुरा		जै०कंला		धायपुरा
5	जै०कंला	पहाडपुरा	पहाडपुरा	5	जै०कंला	पहाडपुरा	पहाडपुरा
6	जै०कंला	उदयपुर कंला	उदयपुर कंला	6	जै०कंला	उदयपुर कंला	उदयपुर कंला
7	जै०कंला	करनपुरा	करनपुरा	7	जै०कंला	करनपुरा	करनपुरा
8	जै०कंला	नदंगंवा	नदंगंवा	8	जै०कंला	नदंगंवा	नदंगंवा
	जै०कंला		देवपुरा		जै०कंला		देवपुरा
	जै०कंला		चिकनीपुरा गै०आ०		जै०कंला		चिकनीपुरा गै०आ०
9	जै०कंला	महुआ	महुआ	9	जै०कंला	महुआ	महुआ
	जै०कंला		कीलपुरा		जै०कंला		कीलपुरा
10	जै०कंला	विट्ठौना	विट्ठौना	10	जै०कंला	विट्ठौना	विट्ठौना
	जै०कंला		खुलियापुरा		जै०कंला		खुलियापुरा
	जै०कंला		रैपुरादीक्षित		जै०कंला		रैपुरादीक्षित
11	जै०कंला	क्यारी	क्यारी	11	जै०कंला	क्यारी	क्यारी
12	जै०कंला	गढी रम्मपुरा	गढी रम्मपुरा	12	जै०कंला	गढी रम्मपुरा	गढी रम्मपुरा
13	जै०कंला	मुकटपुरा	मुकटपुरा	13	जै०कंला	मुकटपुरा	मुकटपुरा
	जै०कंला		खरिक		जै०कंला		खरिक
	जै०कंला		सरौखीपुरा		जै०कंला		सरौखीपुरा
			हतकांत गैर आ०				हतकांत गैर आ०
14	जै०कंला	मऊ	मऊ	14	जै०कंला	मऊ	मऊ
15	जै०कंला	गढियाप्रतापपुरा	गढियाप्रतापपुरा	15	जै०कंला	गढियाप्रतापपुरा	गढियाप्रतापपुरा
	जै०कंला		नावली		जै०कंला		नावली
16	जै०कंला	कूकापुर	कूकापुर	16	जै०कंला	कूकापुर	कूकापुर
17	जै०कंला	खिलावली	खिलावली	17	जै०कंला	खिलावली	खिलावली
18	जै०कंला	शाहपुर गूजर	शाहपुर गूजर	18	जै०कंला	शाहपुर गूजर	शाहपुर गूजर
19	जै०कंला	कोरथ	कोरथ	19	जै०कंला	कोरथ	कोरथ
	जै०कंला		कमौनी		जै०कंला		कमौनी

क्र० सं०	पूर्व की स्थिति			क्र० सं०	संशोधित की स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
	जै०कंला		उदयपुर खुर्द		जै०कंला		उदयपुर खुर्द
20	जै०कंला	चौरंगाहार	चौरंगाहार	20	जै०कंला	चौरंगाहार	चौरंगाहार
21	जै०कंला	मढेपुरा	मढेपुरा	21	जै०कंला	मढेपुरा	मढेपुरा
	जै०कंला		धनियापुरा		जै०कंला		धनियापुरा
22	जै०कंला	खोहरी	खोहरी	22	जै०कंला	खोहरी	खोहरी
23	जै०कंला	मालौनी	मालौनी	23	जै०कंला	मालौनी	मालौनी
24	जै०कंला	खेड़ाराठौर	खेड़ाराठौर	24	जै०कंला	खेड़ाराठौर	खेड़ाराठौर
	जै०कंला		गोहरा		जै०कंला		गोहरा
25	जै०कंला	उधन्नपुरा	उधन्नपुरा	25	जै०कंला	उधन्नपुरा	उधन्नपुरा
	जै०कंला		कान्हरपुरा		जै०कंला		कान्हरपुरा
26	जै०कंला	शाहपुरब्राह्मण	शाहपुरब्राह्मण	26	जै०कंला	शाहपुरब्राह्मण	शाहपुरब्राह्मण
	जै०कंला		पाठकपुरा		जै०कंला		पाठकपुरा
27	जै०कंला	नयेपुरा	नयेपुरा	27	जै०कंला	नयेपुरा	नयेपुरा
28	जै०कंला	नौगंवा	नौगंवा	28	जै०कंला	नौगंवा	नौगंवा
29	जै०कंला	पई	पई	29	जै०कंला	पई	पई
	जै०कंला		खिच्चरपुरा		जै०कंला		खिच्चरपुरा
30	जै०कंला	कचौरा	कचौरा	30	जै०कंला	कचौरा	कचौरा
31	जै०कंला	चित्राहाट	चित्राहाट	31	जै०कंला	चित्राहाट	चित्राहाट
32	जै०कंला	सजैती	सजैती	32	जै०कंला	सजैती	सजैती
	जै०कंला		नौनेरा		जै०कंला		नौनेरा
33	जै०कंला	गढवार	गढवार	33	जै०कंला	गढवार	गढवार
34	जै०कंला	गढी बरौली	गढी बरौली	34	जै०कंला	गढी बरौली	गढी बरौली
	जै०कंला		चरीथा		जै०कंला		चरीथा
35	जै०कंला	पारना	पारना	35	जै०कंला	पारना	पारना
	जै०कंला		फकीरे की मढिया		उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-5 की संख्या 1344 / एक-5-2015-49 / 2015 लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से राजस्व ग्राम फकीरे की मढिया को ग्राम पंचायत पारना विकास खण्ड जै०कंला, आगरा से ग्राम पंचायत बाऊथ विकास खण्ड जसवन्त नगर जनपद इटावा की सीमा में परिवर्तित किया गया है।		
36	जै०कंला	सुजानपुरा	सुजानपुरा	36	जै०कंला	सुजानपुरा	सुजानपुरा
	जै०कंला		लखनपुरा		जै०कंला		लखनपुरा जग्गीर

क्र० सं०	पूर्व की स्थिति			क्र० सं०	संशोधित की स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
			जगगीर				
	जै०कंला		तिलपुरा		जै०कंला		तिलपुरा
	जै०कंला		नगला बछगैया		जै०कंला		नगला बछगैया
	जै०कंला		कमालपुरा		जै०कंला		कमालपुरा
37	जै०कंला	बड़ागांव	बड़ागांव	37	जै०कंला	बड़ागांव	बड़ागांव
			उगनपुरा				उगनपुरा
38	जै०कंला	चौरंगाबेहड़	चौरंगाबेहड़	38	जै०कंला	चौरंगाबेहड़	चौरंगाबेहड़
39	जै०कंला	नहतौली	नहतौली	39	जै०कंला	नहतौली	नहतौली
40	जै०कंला	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	40	जै०कंला	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
	जै०कंला		कछपुरा		जै०कंला		कछपुरा
41	जै०कंला	सामरेमऊ	सामरेमऊ	41	जै०कंला	सामरेमऊ	सामरेमऊ
	जै०कंला		खेतलीपुरा		जै०कंला		खेतलीपुरा
	जै०कंला		जोजलीपुरा		जै०कंला		जोजलीपुरा
42	जै०कंला	फतेहपुरा	फतेहपुरा	42	जै०कंला	फतेहपुरा	फतेहपुरा
43	जै०कंला	जैतपुर कंला	जैतपुर कंला	43	जै०कंला	जैतपुर कंला	जैतपुर कंला
	जै०कंला		भोजपुरा गै०आ०		जै०कंला		भोजपुरा गै०आ०
44	जै०कंला	प्यारमपुरा	प्यारमपुरा	44	जै०कंला	प्यारमपुरा	प्यारमपुरा
	जै०कंला		सिजवारीपुरा		जै०कंला		सिजवारीपुरा
	जै०कंला		बनकटी		जै०कंला		बनकटी
45	जै०कंला	अमाही	अमाही	45	जै०कंला	अमाही	अमाही
	जै०कंला		मढ़ैया जैसिंह		जै०कंला		मढ़ैया जैसिंह
	जै०कंला		धर्मशाला		जै०कंला		धर्मशाला
	जै०कंला		मोदीडांडा गै०आ०		जै०कंला		मोदीडांडा गै०आ०

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/223/2014-4/89 (आगरा)/2014, दिनांक 28 जनवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
अमित कुमार सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ०प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 70 राजपत्र-2025-(218)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० पंचायती राज-2025-(219)-132 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।